

## प्रेस विज्ञप्ति

### निर्माण श्रमिकों के बच्चों ने खास अंदाज में मनाया 72वां गणतंत्र दिवस

गुरुग्राम: मंगलवार को पूरा देश अपना 72वां गणतंत्र दिवस धूमधाम से मना रहा है। इसी क्रम में गुरुग्राम सेक्टर 66 स्थित आईएमपावर क्लब आईएफसी में एम3एम फ़ाउंडेशन द्वारा गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन किया गया, जहां निर्माण श्रमिकों के बच्चों ने उत्साहपूर्वक इस दिन का जश्न मनाया। बच्चों ने लेबर कैंप में समूह नृत्य प्रदर्शन और राष्ट्रीय गीत के साथ-साथ प्रभात फेरी भी निकाली जिसने उत्सव को और भी खास बनाया। इस अवसर पर एम3एम ग्रुप के प्रबंधक श्री मिक्किल गुप्ता ने बच्चों के समक्ष संविधान के महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर प्रकाश डाला।

एम3एम फ़ाउंडेशन की ट्रस्टी डॉ पायल कनोडिया ने कहा- “एम3एम फ़ाउंडेशन हमेशा से देश के युवाओं के उज्ज्वल भविष्य के प्रति सक्रिय रहा है। बच्चे देश के भविष्य हैं और भारत देश के समग्र विकास में युवाओं का अहम योगदान रहा है। और ऐसे में हम में से भी हर एक की जिम्मेदारी है कि हम राष्ट्र की बेहतरी में अपना योगदान देने के लिए समर्पित रहें। हमारा ये भी कर्तव्य है कि बच्चों को भारतीय संविधान के बारे में अच्छे से अवगत कराएं ताकि वो राष्ट्र के निर्माण में अपना बहुमूल्य योगदान दे सकें। इसी को ध्यान में रखते हुए हमने आज निर्माण श्रमिकों के बच्चों के साथ उत्साहपूर्वक गणतंत्र दिवस मनाया।”

इसके अलावा एम3एम फ़ाउंडेशन की गुरुग्राम सेक्टर 65 स्थित आईएमपावर क्लब 65 एवेन्यू में शिक्षकों द्वारा निर्माण श्रमिकों के बच्चों को गणतंत्र दिवस समारोह के महत्व के बारे में जागरूक करने के लिए भारत के संविधान के बारे में सिखाया गया।

समारोह में शामिल एक बच्चे ने कहा “सभी को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। अपने देश के लोगों के साथ गणतंत्र दिवस समारोह का हिस्सा बनना मेरा सौभाग्य था। हम आभारी हैं कि हमें नृत्य प्रदर्शन के माध्यम से अपने राष्ट्र के लिए अपनी भावनाओं को प्रदर्शित करने का अवसर मिला। यह वास्तव में एक शानदार अनुभव था।”

गत वर्ष से एम3एम फ़ाउंडेशन ने ‘आईएमपावर’ पहल के माध्यम से एम3एम वर्क साइटों पर कार्यरत निर्माण श्रमिकों के 300 से अधिक परिवारों को लाभान्वित किया है। हरियाणा के गुरुग्राम जिले में चिन्हित वर्कसाइटों पर ऐड-एट-एक्शन के सहयोग से संचालित आईएमपावर पहल का उद्देश्य शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा जैसी बुनियादी आवश्यकताओं, कानूनी सहायता, राज्य और केंद्रीय कल्याण योजनाओं तक निर्माण श्रमिकों की पहुंच सुनिश्चित करना है।

### **एम3एम फ़ाउंडेशन के बारे में:**

एम3एम ग्रुप की परोपकारी शाखा एम3एम फ़ाउंडेशन, उज्ज्वल भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने और समाज में समान विकास लाने की दिशा में काम कर रही है। शिक्षा, पर्यावरण, स्वास्थ्य, आपदा प्रबंधन और सामाजिक-आर्थिक विकास इसके प्रमुख क्षेत्र हैं। फ़ाउंडेशन सेल्फ-सस्टेंड प्रोग्राम विकसित करके सामाजिक समस्याओं को सुलझाने के लिए एक अभिनव दृष्टिकोण अपनाने में विश्वास रखती है।